


विद्याभवन , बालिका विद्यापीठ, लक्खीसराय  
रूपम कुमारी , वर्ग-दशम् , विषय-हिन्दी   
दिनांक – ३/६/२०

॥ अध्ययन-सामग्री ॥

विंस्टन चर्चिल ने कहा है – “स्वस्थ नागरिक  
किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी संपदा है ।”  
उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है आप और  
आपका स्वास्थ्य ही देश की संपदा है । देश  
तभी समृद्ध होगा जब आप स्वस्थ रहोगे ।  
इसलिए खुद को संक्रमण से बचाना खुद की  
हिफाजत करना मात्र नहीं है, बल्कि देश  
भक्ति का भी परिचायक है ।  
अतः खुद को महफूज रखें तो देश सुरक्षित  
रहेगा ।

रोचक तथ्य:

- 3 जून 1915 को रविंद्र नाथ टैगोर को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ।
- 3 जून 1918 को गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मनोनीत हुई ।
- 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था ।

वार्तालाप: बच्चों कल हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की परिवर्तन के नियम को जाना । आज हम आपके लिए उसी नियम के तहत की प्रश्नावली लेकर

उपस्थित हैं ।यानी आप आज कर्तृवाच्य  
के उदाहरणों को कर्मवाच्य में बदलेंगे ।

छात्र गतिविधि :

निम्नलिखित कर्तृवाच्य के उदाहरणों को  
कर्मवाच्य में बदलें—

- मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा ।
- अशोक पुस्तक पढ़ता है ।
- उन लड़कों ने हमें मूर्ख बना दिया ।
- अंग्रेजी में लिखित यह पत्र मैं नहीं पढ़  
सकूंगा ।
- ज्योति कार अच्छी तरह से नहीं चलाती  
।
- लड़कियों ने देश प्रेम का मार्मिक गीत  
सुनाया ।
- निककी ने खाना खाया ।

- हामिद पतंग उड़ा रहा है ।
- सुरेश नाटक खेलता है ।
- रीमा चित्र बनाती है ।
- नानी कहानी पढ़ रही है ।
- वह दिन में दूध पीता है ।
- कलाकार मूर्ति गढ़ता है ।
- माला ने खाना खाया ।
- लता मंगेशकर मधुर गीत गाती है ।
- वह दिन में फल खाता है ।

एक काम और कीजिएगा इन सारे वाक्यों में से कर्म को चुनकर लिखिएगा , ताकि आप कर्म को पहचान रहे हैं या नहीं यह हमें पता चले ।

कुछ वैसे वाक्य भी लिखें जो कर्मवाच्य  
के उदाहरण तो हैं लेकिन उसमें कर्ता  
मौजूद नहीं है ।

जैसे - खिड़की खुल गई ।

समझ में ना आए तो एक बार अपने  
संबंधित ग्रुप पर सवाल जरूर करें ।